

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**  
 प्राधिकार से प्रकाशित  
 PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 27, 2001 (माघ 7, 1922)  
 No. 4] NEW DELHI, SATURDAY JANUARY 27, 2001 (MAGHA 7, 1922)

**इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।**  
 (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2  
 [PART I—SECTION 2]

**(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं**  
 [Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 10 जनवरी, 2001

सं० ए० 22017/1/2001-पी० एम ए० —प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ में दिनांक 11-10-1999 से विशेष कार्याधिकारी के रूप में कार्य कर रहे श्री कचन गुप्ता ने दिनांक 10 जनवरी, 2001 के अपराह्न स प्रधान मंत्री के निजी स्टाफ में विशेष कार्याधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

पी० के० राय, अवर सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 जनवरी, 2001

सं० पी० एफ० 1749(3) जी० एन-4523 ए० एन-1/2001.—अध्यक्ष महोदय, इस समय वस्तु मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर 12000-16500 रुपये के वेतनमान में कार्यरत

अवर सचिव श्री दीपक महाना को 12750-375-16500 रुपये के वेतनमान में उप सचिव के रूप में 2 जनवरी, 2001 से आगामी आदेशों तक तदर्थ आधार पर सहर्ष प्रीकार्मा पदोन्नति प्रदान करते हैं।

जोगिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

सं० पी० एफ० 1870(3) जी० एन०-4524 ए० एन०-1/2001—अध्यक्ष महोदय, 19 मई 2000 की अधिसूचना सं० जी० एन०-4423/2000 के द्वारा अवर सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए श्री जे० एस्० चौहान को 12000-375-16500 रुपये के वेतनमान में अवर सचिव के रूप में नियमित आधार पर 2 जनवरी 2001 से आगामी आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जोगिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

सं० पी०एफ० 1986 (3) जी०एन०-4525/ए०एन०-1/2001—अध्यक्ष महोदय, 8000-13500 रुपये के वेतनमान में विधायी/कार्यकारी/समिति/प्रोटोकाल अधिकारी के रूप में कार्यरत श्री पवन कुमार को 10000-325-15200 रुपये के वेतनमान में सहायक निदेशक के ग्रेड में 2 जनवरी 2001 से आगामी आदेशों तक महर्षि नियुक्त करते हैं।

जोगिन्दर सिंह, संयुक्त सचिव

#### योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 02 जनवरी 2001

सं० एफ०-6 (1818)/2001-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री एस०एस० बोपाराय, आई०ए०एस० (पंजाब : 64) को दिनांक 01-01-2001 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक भारत सरकार के सचिव के रैंक एवं वेतन पर योजना आयोग में सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

के०के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 04 जनवरी 2001

सं० ए-12025/06/98-प्रशासन-1—योजना आयोग के दिनांक 3 जुलाई, 2000 के समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति, योजना आयोग में तदर्थ उप सलाहकार (ऊर्जा सर्वेक्षण) श्री अलेग्जेंडर जेकब की 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में तदर्थ नियुक्ति की अवधि को दिनांक 22-12-2000 से अगले 6 महीने तक अथवा उस पद को नियमित रूप से भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी सबसे पहले हों, बढ़ाते हैं।

के०के० छाबड़ा, अवर सचिव

सं० ए-12025/22/98-प्रशासन-1—योजना आयोग के दिनांक 14 जुलाई, 2000 के समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में, राष्ट्रपति, योजना आयोग में तदर्थ उप सलाहकार (उर्वरक) श्री यू०के० त्रिवेदी की 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में तदर्थ प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 8-12-2000 से अगले 6 महीने तक अथवा उस पद के नियमित पदधारी के अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हों, बढ़ाते हैं।

के०के० छाबड़ा, अवर सचिव

#### सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 04 जनवरी 2001

सं० 4 (625) /8-का०-1—सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वैज्ञानिक “एफ”, श्री सी०एल० कौल (कर्मचारी कोड सं० 84) द्वारा केन्द्रीय सिविल (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48-क के अन्तर्गत दिए गए सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति के नोटिस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति किए जाने के फनस्वरूप, उन्हें दिनांक 04-01-2001 के पूर्वोक्त से स्वैच्छिक निवृत्ति होने की अनुमति दी जाती है।

प्रवीण कुमार दत्त, संयुक्त निदेशक

दिनांक 08 जनवरी, 2001

सं० 4(27)/73-का०-1—सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वैज्ञानिक “जी”, श्री एस० मुखोपाध्याय का दिनांक 30-10-2000 को निधन हो गया है।

प्रवीण कुमार दत्त, संयुक्त निदेशक

#### राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 04 जनवरी 2001

सं० ए-39013/1/2000-प्रशा-1—राष्ट्रपति एतद्-द्वारा श्री भूपेश गुप्ता, कर्मचारी कोड सं० 4513, का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, इंदौर, मध्य प्रदेश में वैज्ञानिक “बी” के पद से त्यागपत्र दिनांक 09-11-2000 की (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्याम सुन्दर, उप निदेशक

दिनांक 08 जनवरी 2001

सं० ए-39013/1/2000-प्रशा-1—राष्ट्रपति एतद्-द्वारा श्री पी० राजकुमार, कर्मचारी कोड सं० 219 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र मुख्यालय, नई दिल्ली में वरिष्ठ प्रकाशन अधिकारी के पद से त्यागपत्र दिनांक 08-01-2001 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन कार्यमुक्त किया जाता है, जिससे कि वे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन०सी० ई० आर० टी०) श्री अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली में प्रधान, प्रकाशन संभाग के रूप में कार्यभार ग्रहण कर सकें।

श्याम सुन्दर, उप निदेशक

दिनांक 10 जनवरी 2001

सं० ए-39013/1/2000-प्रशा-1—राष्ट्रपति एतद्-द्वारा श्री एस० सुन्दरबावीवेलन, कर्मचारी कोड सं० 4320, का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, तमिलनाडु राज्य एकक, चेन्नई में वैज्ञानिक “सी” के पद से त्यागपत्र दिनांक 03-10-2000 (अपराह्न) से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन कार्यमुक्त किया जाता है।

श्याम सुन्दर, उप निदेशक

#### विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

##### विधायी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक, 09 जनवरी 2001

सं० ए-12026/7/2000-प्रशा-1—(वि०वि०)—राष्ट्रपति जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा में व्यक्तिगत उन्नयन के आधार पर उप सचिव के पद पर कार्यरत सुश्री किरणपुरी को 05 जनवरी, 2001 की पूर्वाह्न से 7 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय के विधायी विभाग में उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एम० दास, उप सचिव

**विधि कार्य विभाग**

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी, 2001

सं० ए० 12023/32/2000-प्रशा०-I (वि० का०)---

राष्ट्रपति, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम० जगन्नाथ राव को, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 31 अगस्त, 2003 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले ही, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, विधि कार्य विभाग में भारत के विधि आयोग के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति के निबन्धन व शर्तें वही होंगी जो आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के लिये विधि कार्य विभाग के दिनांक 2 जनवरी, 2001 के आदेश सं० ए० 45012/5/2000-प्रशा०-II (वि० का०) द्वारा यथासंशोधित दिनांक 17 अगस्त, 2000 के आदेश सं० ए० 45012/3/2000-प्रशा० I (वि० का०) के पैराग्राफ 3 (ख) में विनिर्दिष्ट हैं।

वी० अनन्तकृष्णन, उप सचिव

**(न्याय विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 21 दिसम्बर, 2000

सं० के०-13012/6/2000-यू० एस० II-भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायविद् श्री मुहम्मद असगर खां तथा न्यायविद् श्री ओंकारेश्वर भट्ट को वरिष्ठता के उक्त क्रम में अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

**गृह मंत्रालय**

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 जनवरी, 2001

सं० 14031/6/2000-यू० टी० एस०:-अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री दंगनुना 31 दिसम्बर, 2000 के अपराह्न से सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

के० के० कालरा, अवर सचिव

सं० 14031/6/2000-यू० टी० एस०:-अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, संघ राज्य क्षेत्रों के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, श्री के० सेथुरमन 31 दिसम्बर, 2000 के अपराह्न से सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

के० के० कालरा, अवर सचिव

**नई दिल्ली, दिनांक**

सं० 20/जी०/2376/प्रशा० 1(क):-राष्ट्रपति, श्री के० बी० सक्सेना, भा० प्र० से० (बिहार: 64) को गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग के सचिव के रूप में दिनांक 1 जनवरी, 2001 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिये नियुक्त करते हैं।

पी० बी० शिवरामन, अवर सचिव

सं० 20/जी०/2377-प्रशा० 1(क):-राष्ट्रपति, श्री ए० के० भण्डारी, भा० पु० से० (राजस्थान: 66) को गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में दिनांक 1 जनवरी, 2001 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक के लिये नियुक्त करते हैं।

पी० बी० शिवरामन, अवर सचिव

दिनांक 4 जनवरी, 2001

सं० ए० 32014/06/1999-प्रशा० 1 (क):-राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा सवर्ग के निम्नलिखित स्थाई सहायकों को प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई अवधि के लिये अथवा नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक के लिये पूर्णतया तदर्थ आधार पर उक्त संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये नियुक्त करते हैं।

| क्रम सं० | नाम                   | अवधि       |              |
|----------|-----------------------|------------|--------------|
|          |                       | से         | तक           |
| सर्वश्री |                       |            |              |
| 1.       | जगदीश कुमार मदान      | 01-01-2000 | 31-12-2000   |
| 2.       | के० सी० चावला         | 01-01-2000 | 31-12-2000   |
| 3.       | रेवती प्रसाद          | 01-01-2000 | 31-12-2000*  |
| 4.       | घनश्याम ठाकुर         | 01-01-2000 | 03-03-2000** |
| 5.       | एस० के० वसु           | 01-01-2000 | 14-05-2000== |
| 6.       | आर० पी० उनियाल        | 01-01-2000 | 31-12-2000   |
| 7.       | राहुल रणबीर सिंह      | 01-01-2000 | 31-12-2000   |
| 8.       | ए० के० गुहा           | 01-01-2000 | 31-12-2000   |
| 9.       | कृष्ण कुमार           | 01-01-2000 | 31-12-2000   |
| 10.      | एम० एम० डी० मञ्जुमदार | 01-01-2000 | 31-12-2000   |
| 11.      | जगमोहन सिंह           | 01-01-2000 | 31-12-2000   |
| 12.      | बी० एम० जोशी          | 15-02-2000 | 31-12-2000   |
| 13.      | प्रतीप देव            | 01-01-2000 | 31-12-2000   |
| 14.      | बलजीत सिंह            | 01-01-2000 | 31-12-2000   |
| 15.      | पी० के० सिंह          | 01-01-2000 | 12-03-2000== |
| 16.      | चांद किरण             | 01-01-2000 | 02-01-2000:: |
| 17.      | एस० डी० सरकार         | 24-07-2000 | 31-12-2000   |
| 18.      | नवनीत मिश्रा          | 09-08-2000 | 31-12-2000   |
| 19.      | बी० एस० दहिया         | 10-11-2000 | 31-12-2000   |
| 20.      | सतीश चन्दर            | 17-11-2000 | 31-12-2000   |

\*सेवानिवृत्त।

\*\*नियमित चयन सूची वर्ष, 1997 द्वारा अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत होने पर संघ लोक सेवा आयोग में स्थानान्तरित।

=नियमित चयन सूची वर्ष, 1998 द्वारा पदोन्नत होने पर विधि मंत्रालय में स्थानान्तरित।

=प्रतिनियुक्ति पर।

:: पदावनत (रिवाटेंड)

पी० बी० शिवरामन, अवर सचिव

दिनांक 10 जनवरी 2001

सं० ए- 32014/16/1998-प्रशा० 1(क)—राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय संवर्ग में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों की तदर्थ नियुक्ति को 30-06-2001 तक के लिए अथवा नियमित अधिकारियों के मिलने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए निरन्तर करते हैं।

क्रम सं० अधिकारी का नाम

1. सतीश कुमार निश्चल
2. पी० शिवसंकरन
3. बी० पी० शर्मा
4. एम० ई० कुट्टी
5. एस० के० डंग
6. डी० बालानुजन
7. जी० यशोधरन
8. डी० एस० ठाकुर
9. आई० एस० नूनवाल

पी० वी० शिवरामन, अवर सचिव

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2001

सं० 12013/6/98-रा० भा० (का०-1)—राष्ट्रपति, सहर्ष श्री प्रेम सिंह को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में दिनांक 29-12-2000 (अपराह्न) से तीन वर्ष अथवा अगले आदेशों तक, इन दोनों में जो भी पहले हो, तब तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर उप-निदेशक (का०) नियुक्त करते हैं।

सरोज जैसिया अवर सचिव

संसदीय राजभाषा समिति

नई दिल्ली, दिनांक 01 जनवरी 2001

सं० ए- 20012/15/2001-समिति-6—राष्ट्रपति जी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित सहायक श्री धर्मानन्द मिश्रा को दिनांक 01-01-2001 के (पूर्वाह्न) में अगले आदेशों तक संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय में अनुभाग अधिकारी (वेतनमान रुपए 6500-200-10,500) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

हरि शंकर सिंह, अवर सचिव (प्रशासन)  
संसदीय राजभाषा समिति

कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2000

सं० ए- 12026/4/97-प्रशासन-I—राष्ट्रपति, सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ अधिकारी

श्री वी० डी० शर्मा की, इस विभाग में सचिव (केन्द्रीय सिविल सेवा साम्प्रतिक तथा फ्रीडा बोर्ड) के रूप में 10,000-325-15,200 रुपए के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति की अवधि, दिनांक 11-12-2000 में और एक वर्ष के लिए बढ़ाते हैं।

राजेश्वर दयाल, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 नवम्बर 2000

सं० डी-II/460/सी एफ-28/2000—भारत के राष्ट्रपति, श्री शर्मा नन्द शर्मा की मुम्बई में अंगोला के अवैतनिक कोसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री शर्मा नन्द शर्मा के कोसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र राज्य होगा।

परम जीत मान, प्रोतोकोल उप-प्रमुख (एफ)

दिनांक 4 दिसम्बर 2000

सं० डी-III/460/सी एफ-15/2000—भारत के राष्ट्रपति, सुश्री किरन मजूमदार की बंगलौर में आयरलैंड की अवैतनिक कोसल के रूप में नियुक्ति को तुरन्त प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

सुश्री किरन मजूमदार के कोसली क्षेत्राधिकार में कर्नाटक राज्य होगा।

पी० जे० मान, प्रोतोकोल उप-प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 03 जनवरी 2001

सं० 2 (फा० सं० ए-19013/23/2000-प्रशा०-I)—राष्ट्रपति, भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के अधिकारी, श्री वी० के० मलिक को राजस्व विभाग में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में न्यायिक एकक में 26-12-2000 (पूर्०) से प्रतिनियुक्ति आधार पर तकनीकी अधिकारी नियुक्त करने हैं।

प्यार लाल, अवर सचिव

नई दिल्ली दिनांक 1 जनवरी 2001

भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क स्थापना

सं० 2001 का I फा० सं० ए-32012/9/99-प्रशा०-II—राष्ट्रपति जी मुम्बई के सीमा शुल्क सहायक आयुक्त, श्री विनय कुमार (कनिष्ठ समय वेतनमान) (8000-275-13,500 रु०) को 04-09-1999 में सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह "क" के सहायक आयुक्त के ग्रेड (वरिष्ठ समय वेतनमान) (10,000-325-15,200 रु०) में पदोन्नत करने का आदेश देते हैं।

आर० के० मल्होत्रा, अवर सचिव

(सक्षम प्राधिकारी एकक)

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2000

(मुख्यालय स्थापना)

सं० 06/2000 फा० सं० 2(12)/93-म० प्रा० (पार्ट-II)---  
राष्ट्रपति, भारतीय सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा के अधिकारी तथा इससे पूर्व अमृतसर के सीमाशुल्क आयुक्त के रूप में तैनात श्री वी० के० शर्मा को 21 नवम्बर, 2000 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक लखनऊ के सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक [तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति सम्पहरण) अधिनियम, 1976 तथा स्वापक औपधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985] नियुक्त करते हैं।

सी० जे० स्कारिया, डेस्क अधिकारी (स० प्रा० एकक)

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2001

सं० ए० 19011/1/2001-प्रशासन-2---राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव, श्री एल० के० प्रसाद को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में दिनांक 01 जनवरी, 2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक उसी क्षमता में नियुक्त करते हैं।

रामेश्वर सिंह यादव, अवर सचिव

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2001

सं० 14/1/99-डी आर टी---जिला एवं सेशन जज, उज्जैन के पद पर तैनाती के परिणामस्वरूप ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली के पीठासीन अधिकारी श्री आर० वाई० दुर्वे, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली से दिनांक 10-01-2001 (अपराह्न) को मेवानिवृत्त होंगे। श्री एस० एन० अग्रवाल, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली अपने प्रभार के अतिरिक्त ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली के पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

जी० आर० सुमन, उप सचिव

सं० 14/1/99-डी आर टी---श्री आर० वाई० दुर्वे का जिला एवं सेशन जज, उज्जैन में तैनाती होने के परिणामस्वरूप, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के फलस्वरूप और बैंको एवं वित्तीय संस्थाओं का शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली के पीठासीन अधिकारी श्री एस० एन० अग्रवाल को, अपने कार्यभार के अलावा तत्काल प्रभाव से डी आर टी-I, दिल्ली के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होने तक, ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली के पीठासीन अधिकारी का भी कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

जी० आर० सुमन, उप-सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी, 2001

सं० 1/2001 फा० सं० 5/1/98-कार्मिक-1/181---राष्ट्रपति महोदय श्रीमती तार० मुग्ग, भारतीय व्यापार सेवा में ग्रेड-1 (अर्थात् संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार), (वेतनमान 12,000-375-16,500 रु०) को 20-11-2000 से अगले आदेशों तक कार्य-इतर नाग ग्रेड (वेतनमान रु० 14,300-400-18,300 रु०) प्रदान करते हैं।

ए० के० एम० चाकणकर, संयुक्त महानिदेशक,  
विदेश व्यापार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर 2000

सं० ए-12011/10/97-स्थापना---राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के स्थायी ग्रेड "ग" आशुलिपिक श्री यूजीन थाभस एफ० को इस मंत्रालय में 21-11-2000 से 6 माह की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6500-200-10,500/- रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव (क और ख विलयित) के रूप में नियुक्त करते हैं।

रेणुका कुमार, अवर सचिव

दिनांक 27 नवम्बर 2000

सं० ए-12011/4/99-स्थापना---राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30/31 मई, 2000 के फा० शा० मख्या 5/1/2000-सी एस-2 के द्वारा प्रवर्ण सूची में श्री पी० सी० जैन का नाम जोड़ने के लिए जोन में उनका नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव (श्रेणी क और ख विलयित) श्री जैन को 21-11-2000 से रुपए 6500-200-10,500/- के वेतनमान में नियुक्त करते हैं।

2. वे इस मंत्रालय में निजी सचिव (श्रेणी क और ख विलयित) के पद पर उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

रेणुका कुमार, अवर-सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय  
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 3 जनवरी 2001

सं० एस० एम०/01/001/2000—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को, उनके नाम के सामने दी गई तिथि से एवं अगले आदेशों तक रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में समूह "क" सेवा में भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उप-अधीक्षक सर्वेक्षक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

|                             |   |            |
|-----------------------------|---|------------|
| 1. श्री च० वेन्कटेश्वरा राव | — | 29-09-2000 |
| 2. श्री उदय शंकर प्रसाद     | — | 29-09-2000 |
| 3. श्री नितिन जोशी          | — | 29-09-2000 |
| 4. श्री संदीप श्रीवास्तव    | — | 02-11-2000 |

अविनाश दीक्षित, उप सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 4 दिसम्बर 2000

सं० ए-19011/13/2000-भा० व० से०—राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के हिमाचल प्रदेश संवर्ग के 1988 बैच के अधिकारी श्री ए आर एम रेड्डी को 09 अगस्त, 2000 पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत राज्य वन सेवा कालेज, देहरादून में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी० पी० हालदार, अवर सचिव

सं० 19011/14/2000-भा० व० से०-I—राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के मणिपुर त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग के 1985 बैच के अधिकारी श्री जगबन्धु मिश्रा को 17 अक्तूबर, 2000 पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग में वन संरक्षक (सी) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी० पी० हालदार, अवर सचिव

सं० 19011/15/2000-भा० व० से०-I—राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा के हरियाणा संवर्ग के 1972 बैच के अधिकारी श्री जे० के० रावत को 10 नवम्बर 2000 पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून के पद पर नियुक्त करते हैं।

जी० पी० हालदार, अवर सचिव

नई दिल्ली-3, दिनांक 21 दिसम्बर 2000

सं० ए० 12012/7/99-पी-II(. )—कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20-8-99 के कार्यालय ज्ञापन सं० 21/48/97-सो एत-I के अनुसरण में राष्ट्रपति, केन्द्रीय

सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्रीमती रीता शायल को उनके द्वारा धारित अनुभाग अधिकारी के पद का उन्नयन करते हुए उन्हें दिनांक 13 नवम्बर, 2000 से और अगले आदेशों तक 10,000-325-15,200/- रु० के वेतनमान में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में अवर सचिव के पद के प्रति वैयक्तिक/स्वस्थानों आधार पर अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

2. उन्नत पद के प्रति की गई नियुक्ति से उपर्युक्त अधिकारी को अवर सचिव के रूप में नियमित नियुक्ति अथवा इस ग्रेड में वरिष्ठता के लिए दावा करने का हक प्राप्त नहीं होगा।

3. उपर्युक्त नियुक्ति अमृत लाल एवं अन्य द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ नई दिल्ली में फाइल एवं लंबित एम ए सं० 840/1998 के निर्णय तथा श्री एम जी श्रीनिवास एवं अन्य द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में फाइल ओ ए सं० 146/1998 के निर्णय के अधीन होगी।

एस० एस० एस० समी, अवर सचिव

दिनांक 26 दिसम्बर 2000

सं० ए० 23012/1/96-पी-II(. )—पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित सहायकों की 6500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ नियुक्तियों को समझ प्राधिकारी के अनुमोदन और कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25-11-2000 के कार्यालय ज्ञापन सं० 5/11/97-सो एस-I के अनुसार, प्रत्येक के नाम के समक्ष धर्मायी गई अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारकों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जाता है—

1. श्री मनोज कुमार सिंह 01-10-2000 से 31-3-2001 तक
2. श्री बी० डी० साहूनी तदर्थ
3. श्री जे० के० चक्रवर्ती तदर्थ
4. श्री पी० सी० मामगाई तदर्थ
5. श्री ओ० पी० छिल्लर तदर्थ
6. श्री टी० एन० मक्कड़ 23-02-1999 से 31-3-2001 तक।

2. उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति से उन्हें नियमित पदोन्नति के लिए दावा करने का हक नहीं होगा। सरकार को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताए उक्त तदर्थ पदोन्नति निरस्त कर सकती और सरकारी कर्मचारी को किसी भी समय उसके पूर्व धारित पद, जहाँ से उसे पदोन्नत किया गया है, पर प्रत्यावर्तित कर सकती।

एस० एस० एस० समी, अवर सचिव

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2001

सं० ए० 12025/169/96-सी०एच०एस०-I-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० सी० रवि चन्द्र को 27-6-97 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० सी० रवि चन्द्र को श्रम मंत्रालय के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए० 12025/153/97-सी०एच०एस०-I-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० (श्रीमती) निर्मला रानी को 27-11-97 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० (श्रीमती) निर्मला रानी को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 10 जनवरी 2001

सं० ए० 12025/151/98-सी० एच० एस०-I-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० रविन्द्र बाई० असंगी को 12-2-1999 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 रु० के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० रविन्द्र बाई० असंगी को भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 11 जनवरी 2001

सं० ए० 12025/10/99-सी०एच०एस०-I-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० मनीषा दास को 6 जून, 2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13500/- रु० वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० मनीषा दास को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

डा० शैलजा महादेवन को 7 अगस्त, 2000 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13500/- रु० के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० शैलजा महादेवन को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, तिरुवनन्तपुरम के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं० ए० 12025/110/99-सी०एच०एस०-I-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० रंजन दास को 10-3-2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 रु० के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा० रंजन दास को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मुम्बई के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 9 जनवरी 2001

सं० ए० 39012/6/97-सी०एच०एस०-IV-डा० रमेश चन्द्र ने अपने त्यागपत्र के स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप 24 जुलाई, 1997 के अपराह्न को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपसंवर्ग के विशेषज्ञ-II के कान, नाक, गला विशेषज्ञ के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

एन० के० पुष्पाकरण, अवर सचिव

सं० ए० 12025/9/99-सी०एच०एस०-IV-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा० रंगनाथ एम० कट्टी को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपसंवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-2 पद पर परीक्षा पर नियुक्त करके उन्हें 21 सितम्बर, 2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, चेन्नई में नेत्र विशेषज्ञ के रूप में तैनात करते हैं।

2. डा० रंगनाथ एम० कट्टी ने 21 सितम्बर, 2000 के पूर्वाह्न को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

एन० के० पुष्पाकरण, अवर सचिव

सं० ए० 12025/40/99सी० एच० एस०-I-राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर

## कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 2000

सं० 2-6/95-एन० डब्ल्यू० सी०-III (भाग-I)--  
राष्ट्रपति, भारत सरकार मृदा मूल्यांकन, मिण्टो रोड, नई दिल्ली के ओवरसीयर श्री आर० के० दत्ता को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के आधार पर 27 नवम्बर, 2000 के अपराह्न से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, अखिल भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण में मृदा अधिकारी (जी० सी० ए० समूह "क" राजपत्रित अधिकारी—वेतनमान : 8000-275-13500) के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० के० अग्रवाल, अवर सचिव

दिनांक 4 जनवरी 2001

सं० 2-6/95-एन० डब्ल्यू० सी०-III (भाग-1) राष्ट्रपति, भारत सरकार मृदा मूल्यांकन, मिण्टो रोड, नई दिल्ली के ओवरसीयर श्री आर० के० दत्ता को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के आधार पर 27 नवम्बर, 2000 के पूर्वाह्न से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, अखिल भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण में मृदा अधिकारी (जी० सी० ए० समूह "क" राजपत्रित अधिकारी वेतनमान : 8000-275-13500) के पद पर नियुक्त करते हैं।

यह अधिसूचना इस विभाग की दिनांक 18 दिसम्बर, 2000 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में है।

आर० के० अग्रवाल, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी, 2001

संख्या पी-1046/2000-प्रशा० : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13 दिसम्बर, 2000 के कार्यालय जापन संख्या 31/28/2000-ई ओ (एम एम-1) के अनुसरण में राष्ट्रपति परिवार कल्याण विभाग के उप सचिव श्री आई० एम० सीधी को 1 जनवरी, 2001 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग में 12,000-375-16,500 रु० के वेतनमान में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस के नायक, अवर सचिव

संख्या ए-43011/2/2000-प्रशा० : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14 नवम्बर, 2000 के आदेश सं० 31/17/2000-ई ओ (एम एम-1) के अनुसरण में राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय मेश के अवर सचिव श्री एस० एल० मीणा को 1 जनवरी, 2001 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग में 10,000-325-15,200 रु० के वेतनमान में अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस के नायक, अवर सचिव

## ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 नवम्बर 2000

सं० ए-12022/5/2000-स्था-I-इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 21-11-2000 के अधिक्रमण में राष्ट्रपति, श्री रजत भागवत आई० ए० एस० (ए० पी० 90) को 17 नवम्बर, 2000 (अपराह्न) से उप सचिव के स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एस० बेंकैया नायडू) का निजी सचिव नियुक्त करते हैं। यह नियुक्ति मंत्रियों के निजी सचिवों के लिए स्वीकार्य तीन वर्ष के कार्यकाल अथवा ग्रामीण विकास मंत्री के निजी सचिव के पद पर उनके कार्य करते रहने तक अथवा अगले आदेशों, इनमें जो पहले हो तक के लिए होगी।

ए० के० सोनी, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2000

सं० ए० 32011/7/2000-स्था-1-राष्ट्रपति श्री अशोक कुमार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग) में दिनांक 1 दिसम्बर 2000 पूर्वाह्न से पूर्णतः तदर्थ आधार पर अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर सीएसएस के ग्रेड-1 चयन सूची के तैयार होने तक या अगले आवेदन होने तक इनमें से जो भी पहले हो की जाती है। उन्हें अपनी तदर्थ नियुक्ति के आधार पर सी० एस० एस० के ग्रेड-1 की चयन सूची में अपना नाम शामिल करवाने हेतु दावा करवाने का कोई अधिकार नहीं होगा। जब कभी श्री अशोक कुमार का नाम सी एस एस के ग्रेड-1 की चयन सूची में शामिल किया जाएगा तो उनकी इस तदर्थ प्रोन्नति का उपयोग वरिष्ठता का दावा करने के लिए नहीं किया जाएगा।

एल० आर० अग्रवाल, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 दिसम्बर 2000

सं० ए-32013/1/98-पी० प्रशा०-I-संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति, श्री पी० सुन्दराराजूल, प्रदर्शन अधिकारी को 23 अगस्त, 2000 को पूर्वाह्न से स्थानान्तरण रूप से 8000-275-13500/- रुपए के वेतनमान में सहायक तकनीकी सलाहकार (वर्ग "क" राजपत्रित, ज० र्म० एस० संवर्ग) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

आर० शंकरन, अवर सचिव

दिनांक 11 जनवरी 2001

सं० प्र-32013/2/2000-प्र०-I—राष्ट्रपति, विभागीय प्रोत्साहित समिति की सिफारिश पर श्री धारा सिंह, सहायक तकनीकी सलाहकार को 13 दिसम्बर, 2000 की पूर्वाह्नि से 10000-325-15200/- रुपए के वेतनमान में उप-तकनीकी सलाहकार (ग्रुप 'ए' राजपत्रित) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

आर० शंकरन, अवर सचिव

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

दिनांक 8 जनवरी 2001

सं० पाएक 2324/प्रशा०—श्री एम० एस० महिपाल, सहायक महानिदेशक, डाक विभाग की दिनांक 23-12-2000 को, श्री अचानक व असामयिक मृत्यु की सूचना हमारे लिए अत्यंत दुःखद एवं त्रासव है।

जी० पी० पिल्लै, सहायक महानिदेशक (प्रशा०)

पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

दिनांक 21 दिसम्बर 2000

सं० ए. 19011/9/2000-स्थापना-I—श्री के० एन० श्रीवास्तव, भा० प्र० से० (कनाटक : 78) ने 20 दिसम्बर 2000 के पूर्वाह्नि से पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के संस्कृति विभाग में संयुक्त सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है।

कृष्ण चन्द्र गुप्ता, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2001

सं० ई० (जी० पी०)/99/1/55—राष्ट्रपति जी, भारतीय रेलों के सिगनल एवं दूरसंचार विभागों के ग्रुप "बी" के निम्नलिखित 32 अधिकारियों की 29-11-2000 से उनके नाम के साथ दी गई रेलवे में सिगनल एवं दूरसंचार सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में मूलरूप से नियुक्त करने का अनुमोदन देते हैं।

मध्य रेलवे

क्र०सं० सर्वश्री

1. एन० जी० मिश्रा
2. बी० के० विश्वनाथन
3. एस० बी० केशपांडे
4. यु० एस० भट्ट
5. अजय कुलश्रेष्ठा
6. ए० एम० निमोनकर

पूर्व रेलवे

क्र०सं० सर्वश्री

1. एस० चौधरी
2. आर० के० भट्टाचार्य
3. गणेश दास

2-432 GT/2000

4. डी० पी० समाजदार

5. बी० के साहा (अ० जा)

उत्तर रेलवे

क्र०सं० सर्वश्री

1. शेखर श्रीवास्तव
2. मुर्रिबर पाल
3. के० ए० अब्दुल्ला
4. बी० डी० बेम्ब्री

पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे

क्र०सं० सर्वश्री

1. ए० के० दास (अ० जा०)
2. बी० सिकंदर
3. सी० गोपालाकृष्णन कुट्टी

दक्षिण रेलवे

क्र०सं० सर्वश्री

1. वाई० पदमनाभा राव
2. आर० सुब्बैयन (अ० ज० जा०)

दक्षिण मध्य रेलवे

क्र०सं० सर्वश्री

1. पी० बी० रामन कुट्टी
2. बी० चलापाधि (अ० जा)

दक्षिण पूर्व रेलवे

क्र०सं० सर्वश्री

1. एस० पी० मुखोपाध्याय
2. एन० सी० दास (अ० जा०)
3. पी० के० दास (अ० जा०)
4. एच० वाई० वोव्वाकर (अ० ज० जा०)

पश्चिम रेलवे

क्र०सं० सर्वश्री

1. एच० के० शर्मा
2. ए० के० सुरेश बबु
3. आर० के० गुप्ता
4. ए० के० प्राश्नर
5. के० के० प्रोबर
6. राजविर सिंह

डी० पी० त्रिपाठी, सचिव/रेलवे बोर्ड

परीपोत बहन मंत्रालय

स्थापना-1 अनुभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2001

म० ए-12028/8/2000-स्था०-1 राष्ट्रपति, दूर्य-अध्य प्रचार निर्देशन के क्षेत्र प्रदर्शनी अधिकारी श्री राकेश रंजन सिंह को 5 जनवरी, 2001 (पूर्वाह्नि) से 6500-10500 रु० के वेतनमान में सह-अवसानी आधार पर अथवा अगले आवेदों तक पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली) के सहायक निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

रीना सेठो, अवर सचिव

दिनांक 9 जनवरी 2001

सं ए-32013/1/98-स्था-01-—राष्ट्रपति, इस मंत्रालय की दिनांक 25 जुलाई 2000 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में पोल परिवहन मंत्रालय में के.सं.आ.से. के प्रधान निजी सचिव श्री राजमल की वार्गट प्रधान निजी सचिव के रूप में तारीफ़ नियुक्ति को 1-1-2001 से 30-6-2001 तक की अवधि के लिए अर्थात् पहले तो नियमित आधार पर भरे जाने तक इनमें जा भी पहले हो बढ़ाते हैं।

रीना सेठी, अवर सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(स्थापना-I अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 2001

सं ए-12028/5/2000-स्था-I-—राष्ट्रपति, श्री प्रभात कुमार सारंगी, भा.प्र.से. (उ.प्र. : 86) को दिनांक 29-12-2000 (पूर्वाह्न) से 3 वर्ष के लिए अथवा मर्ती के निजी सचिव के रूप में उनके द्वारा कार्य करना वन्द करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 14,300—18,300 रु. के वेतनमान में निदेशक स्तर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) [मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बी.सी. खन्डूडी] के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

रीना सेठी, अवर सचिव

(स्थापना II अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी, 2001

सं ए-12025/1/99-स्था-II-—राष्ट्रपति, श्री जय वर्धन को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में दिनांक 29-12-2000 (अपराह्न) से और आगामी आदेशों तक सहायक कार्यकारी अभियंता के वेतनमान रु. 8000-275-13,500/- में नियुक्त करते हैं।

सी.एस. शर्मा, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2001

सं 1/2001-मि. सं ए-38012/1/2000-प्रशा-0-1-—अधिवर्षिता को आयु प्राप्त होने पर श्री एन. रामलिंगम, जो कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह क) सेवा में अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत थे, भारत सरकार की सेवा से 31 अक्टूबर 2000 के अपरान्त से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एन. एन. वर्मन, उप सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 दिसम्बर 2000

सं 12/2/2000 प्रशा. 2 (भाग) —राष्ट्रपति, श्री जी. के. चौधरी को माननीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्री. रमेश बैस) के वैयक्तिक स्टाफ में 12,000-375-16,500 रु. के वेतनमान में निदेशक कार्याधिकारी के रूप में दिनांक 1-10-2000 से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

2. श्री चौधरी की नियुक्ति सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (श्री. रमेश बैस) के कार्यकाल एवं प्रसाद-प्रयन्त होगी।

एच. जी. उप्रेती, अवर सचिव

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 2000

सं ए-22012/2/99 प्रशा-1-—राष्ट्रपति महोदय श्री मधुकर गुप्ता, भा.प्र.से. (यू.पी. : 71) को दिनांक 6-11-2000 पूर्वाह्न से पाँच वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय (शहरी विकास विभाग) में 18,400-500-22,400 रु. के वेतनमान में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री मधुकर गुप्ता को उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 31-10-2000 (अ.) को कार्यमुक्त किया। उन्होंने दिनांक 01-11-2000 से 05-11-2000 तक पाँच दिनों की कार्य ग्रहण अवधि का लाभ लिया।

डी. के. पालीवाल, अवर सचिव

दिनांक 7 नवम्बर 2000

सं ए 12025/1/97 प्रशा-1-—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति महोदय नई दिल्ली में वैज्ञानिक 'बी' के रूप में कार्यरत श्री विजय कुमार चौरसिया को अगले आदेशों तक दिनांक 1-11-2000 (पू.) से नियमित आधार पर 10,000-325-15,200/- रु. के वेतनमान में केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन में सहायक सलाहकार (पी.एच.ई.) के रूप में नियुक्त करते हैं। वह एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

2. श्री विजय कुमार चौरसिया की सहायक सलाहकार (पी.एच.ई.) के रूप में नियुक्ति उनके अन्य पिछड़ी जाति से होने के प्रमाण पत्र की यथातथ्यता के जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा सत्यापन के अधीन होगी।

डी. के. पालीवाल, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 15 नवम्बर 2000

सं ए-23016/1/97-आ-I/आ-09-06-2000 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में एवं आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के दिनांक 06-11-2000 के कां. शा. सं. 1315/1/96-अ.ई. ई. एस. के अनुसरण में एन.बी.ओ. में अनुसंधान अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री जे. के. नागपाल को, इसके द्वारा 1 दिन अर्थात् 09-11-2000 को प्राविधिक विराम (टेक्निकल ब्रेक) मानते हुए दिनांक 10-11-2000 से आगे 07-05-2001 तक की अवधि के लिए या नियमित व्यवस्था होने तक, इसमें से जो भी पहले हो, सेवा-विस्तार दिया जाता है।

श्रीमती एस. पी. मुजाल, अवर सचिव

## PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 10th January 2001

No. A-22017/1/2001-PMA.—Shri Kanchan Gupta, who has been working as Officer on Special Duty on the personal staff of the Prime Minister since 11-10-1999, has relinquished the charge of the post of Officer on Special Duty on the personal staff of Prime Minister, w.e.f. the afternoon of January 10, 2001.

P. K. ROY, Under Secy

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 3rd January 2001

No. PF.1749(3)/GN-4523/AN-I/2001.—The Speaker is pleased to grant proforma promotion to Shri Deepak Mahna, Under Secretary in the scale of Rs. 12000-16500/- who is presently on deputation to Ministry of Textiles, as Dy. Secretary in the scale of Rs. 12750-375-16500/- on ad-hoc basis with effect from 2nd January, 2001 until further orders.

JOGINDER SINGH, Jt. Secy

No. PF. 1870(3)/GN-4524/AN-I/2001.—The Speaker is pleased to appoint Shri J. S. Chauhan who was appointed as Under Secretary on ad-hoc basis vide Notification No. GN-4423/2000 dated 19th May, 2000, as Under Secretary in the scale of Rs. 12000-375-16500/- on regular basis w.e.f. 2nd January 2001 until further orders.

JOGINDER SINGH, Jt. Secy.

No. PF. 1986(3)/GN-4525/AN-I/2001.—The Speaker is pleased to appoint Shri Pawan Kumar, Legislative/Executive/Committee/Protocol Officer in the scale of Rs. 10000-13500/- to the grade of Assistant Director in the scale of Rs. 10000-325-15200/- with effect from 2nd January, 2001 until further orders.

JOGINDER SINGH, Jt. Secy.

## PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 2nd January 2001

No. F. 6(1818)/2001-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri S. S. Boparai, IAS (PB:64) as Adviser, Planning Commission in the rank and pay of Secretary to the Government of India with effect from 1-1-2001 (F/N) and until further orders.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 4th January 2001

No. A-12025/06/98-Adm.I.—In continuation of Planning Commission's notification of even number dated 3rd July, 2000 the President is pleased to extend the term of ad-hoc appointment of Shri Alexander Jacob as Deputy Adviser (Energy Survey) in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- by a further period of six months w.e.f. 22-12-2000 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earliest.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. A-12025/22/98-Adm.I.—In continuation of Planning Commission's notification of even number dated 14th July, 2000 the President is pleased to extend the term of ad-hoc deputation of Shri U. K. Dwivedi as Deputy Adviser (Fertilizers) in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- by a further period of six months w.e.f. 18-12-2000 or till the regular incumbent of the post reverts or until further orders, whichever is the earliest.

K. K. CHHABRA, Under Secy

## MINISTRY OF INFORMATION TECHNOLOGY

New Delhi-110003, the 4th January 2001

No. 4(625)/98-Pers.I.—Consequent upon the acceptance of notice of voluntary retirement from Government Service, under Rule 48-A of CCS (Pension) Rules, 1972 by the Competent Authority, Shri C. I. Paul, Scientist 'F' (Emp. Code 84) in the Ministry of Information Technology is allowed to retire voluntarily w.e.f. the forenoon of 04-01-2001

P. K. DATTA, Jt. Director

The 8th January 2001

No. 4(27)/73-Pers.I.—Shri S. Mukhopadhyay, Scientist 'G' in the Ministry of Information Technology, has expired on 30-10-2000.

P. K. DATTA, Jt. Director

## NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 4th January 2001

No. A-39013/1/2000-Adm.I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri Bhupesh Gupta, Emp. Code No. 4513, from the post of Scientist 'B', National Informatics Centre, Indore, Madhya Pradesh, with effect from the afternoon of 9-11-2000 and he is relieved of his duties from the same day.

SHYAM SUNDER, Dy. Director

The 8th January 2001

No. A-39013/1/2000-Adm.I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri P. Rajakumar Emp. Code No. 219, from the post of Sr. Publication Officer, National Informatics Centre Headquarters, New Delhi, w.e.f. 8-1-2001 (A/N) and he is relieved of his duties from the same day to enable him to join as Head, Publication Division, National Council of Education Research and Training (NCERT), Sri Arbindo Marg, New Delhi-110 016.

SHYAM SUNDER, Dy. Director

The 10th January 2001

No. A-39013/1/2000-Adm.I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri S. Sundaravadivelan, Emp. Code No. 4320, from the post of Scientist 'C' National Informatics Centre, Tamilnadu State Unit, Chennai, w.e.f. the afternoon of 3-10-2000 and he is relieved of his duties from the same day

SHYAM SUNDER, Dy. Director

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE &amp; COMPANY AFFAIRS

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 9th January 2001

No. A. 12026/7/2000-Adm.I(L.D.).—The President is pleased to appoint Ms. Kiran Puri, CSS, Dy. Secretary, on personal upgradation basis, Department of Health, Ministry of Health and Family Welfare as Deputy Secretary in the Legislative Department, Ministry of Law, Justice and Company Affairs for a period of 7 years or until further orders, whichever is earlier with effect from the forenoon of the 5th January, 2001.

M. DAS, Dy. Secy

## DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 10th January 2001

No. A-12023/32/2000-Admn.III(LA).—The President is pleased to appoint Shri Justice M. Jagannadha Rao, retired Judge of the Supreme Court of India, as Vice-Chairman, Law Commission of India, Ministry of Law, Justice & Co. Affairs, Department of Legal Affairs with effect from the date he assumes charge till 31st August, 2003 or until further orders, whichever event occurs earlier, on the terms and conditions applicable to a full-time Member of the Commission as mentioned in paragraph 3(B) of the Order No. 4-45012/3/2000-Admn.III(LA) dated 17th August, 2000, as amended by Order No. A-45012/5/2000-Admn.III(LA) dated 2nd January, 2001.

V ANANTHAKRISHNAN, Dy. Secy

## DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi, the 21st December 2000

No. K. 13012/6/2000, US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Mohammad Asghar Khan and Shri Justice Onkareshwar Bhatt, Additional Judges of the Allahabad High Court, to be Judges of the Allahabad High Court, in the same order of seniority, with effect from the date they assume charge of their respective office.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-1, the 8th January 2001

No. 14031/6/2000-UTS.—On attaining the age of superannuation, Shri Dengnuna, an Indian Administrative Service Officer of 1980 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories has retired from service in the afternoon of 31st December, 2000.

K. K. KALRA, Under Secy.

No. 14031/6/2000-UTS.—On attaining the age of superannuation Shri K. Sethuraman, an Indian Administrative Service Officer of 1980 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories has retired from service in the afternoon of 31st December, 2000.

K. K. KALRA, Under Secy.

New Delhi, the January 2001

No. 20/G/2376-Ad.I(A).—The President is pleased to appoint Shri K. B. Saxena, IAS (BH : 64) as Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 1st January, 2001, until further orders.

P. V. SIVARAMAN, Under Secy.

No. 20/G/2377-Ad.I(A).—The President is pleased to appoint Shri A. K. Bhandari, IPS (RJ : 66) as Special Secretary in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 1st January 2001, until further orders.

P. V. SIVARAMAN, Under Secy.

The 4th January 2001

No. A-32014/06/1999-Ad.I(A).—The President is pleased to appoint the following permanent Assistants of CSS Cadre of Ministry of Home Affairs to officiate in the Section Officer Grade of the said cadre on ad-hoc basis for the period men-

tioned against each or till regular Section Officers become available, or until further orders whichever is the earliest :—

Sl. No., Name of the Officer, Period, From &amp; To.

S/Shri

1. Jagdish Kumar Madan, 01-01-2000—31-12-2000
2. K. C. Chawla, 01-01-2000—31-12-2000
3. Ravti Prasad, 01-01-2000—31-12-2000\*
4. Ghanshyam Thakur, 01-01-2000—03-03-2000†
5. S. K. Basu, 01-01-2000—14-05-2000§
6. R. P. Uniyal, 01-01-2000—31-12-2000
7. Rahul Ranbir Singh, 01-01-2000—31-12-2000
8. A. K. Guha, 01-01-2000—31-12-2000
9. Krishan Kumar, 01-01-2000—31-12-2000
10. M. M. D. Majumdar, 01-01-2000—31-12-2000
11. Jagmohan Singh, 01-01-2000—31-12-2000
12. B. M. Joshi, 15-02-2000—31-12-2000
13. Pratib Deb, 01-01-2000—31-12-2000
14. Baljit Singh, 01-01-2000—31-12-2000
15. P. K. Singh, 01-01-2000—12-03-2000%
16. Chand Kiran, 01-01-200—02-01-2000@
17. S. D. Sarkar, 24-07-2000—31-12-2000
18. Navneet Mishra, 09-08-2000—31-12-2000
19. B. S. Dahiya, 10-11-2000—31-12-2000
20. Satish Chander, 17-11-2000—31-12-2000.

\* Retired.

† Transferred to UPSC for his regular Select List Promotion as SO against SL 1997.

§ Transferred to M/o Law for his regular Select List promotion, as SO against SL-1998 (SQ)

% Proceeded on deputation

@ Reverted.

P. V. SIVARAMAN, Under Secy.

The 10th January 2001

No. A-32014/16/1998-Ad.I(A).—The President is pleased to continue the ad-hoc appointment of the following Principal Private Secretaries working in the cadre of Ministry of Home Affairs for a further period upto 30-06-2001 or till regular officers become available, whichever is earlier.

Sl. No. &amp; Name of the officer

S/Shri

1. Satish Kumar Nischal
2. P. Sivasankaran
3. V. P. Sharma
4. M. E. Kutty
5. S. K. Dang
6. D. Balanujan
7. G. Yashodharan
8. D. S. Thakur
9. I. S. Noonwal.

P. V. SIVARAMAN, Under Secy.

## DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi, the 3rd January 2001

No. 12013/6/98-OL(Imp.-I).—The President is pleased to appoint Shri Prem Singh as Deputy Director Implementation of Official Language, Ministry of Home Affairs, on deputation basis with effect from 29-12-2000 (Afternoon) for a period of three years or till further order whichever is earlier.

SAROJ JAISIA, Under Secy.

### COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi-110011, the 2nd January 2001

No. A-20012/15/2001-Samiti-6.—The President is pleased to appoint Shri D. N. Misra, Assistant of the Department of Industrial Policy & Promotion, New Delhi, as Section Officer in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- in the Committee of Parliament on Official Language on deputation basis with effect from the forenoon of 01-01-2001 till further orders.

HARI SHANKAR SINGH, Under Secy. (Admn.)

### MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS (DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 5th December 2000

No. A. 12026/4/97-Ad.I.—The President is pleased to extend the term of deputation of Shri B. D. Sharma, Civilian Staff Officer of the Armed Forces Headquarters Civil Services as Secretary (CCSCSB) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in this Department for a further period of one year w.e.f. 11-12-2000.

RAJESHWAR DAYAL, Under Secy.

### MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 15th November 2000

No. D.III/460/CF-28/2000.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Sharma Nand Sharma as Honorary Consul of Angola in Mumbai with immediate effect.

The Consular Jurisdiction of Mr. Sharma Nand Sharma will comprise the State of Maharashtra.

PARAM JIT MANN, Dy. Chief of Protocol (F)

The 4th December 2000

No. D. III/460/CF-15/2000.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Ms. Kiran Mazumdar as Honorary Consul of Ireland in Bangalore with immediate effect.

The Consular Jurisdiction of Ms. Kiran Mazumdar comprises the state of Karnataka.

P. J. MANN, Dy. Chief of Protocol (F)

### MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 3rd January 2001

No. 2 (F.No. A-19013/23/2000 Ad.-I).—The President is pleased to appoint Sh. B. K. Mallick, an officer of IC&CES as Technical Officer in the Judicial Cell in the Central Board of Excise & Customs in the Department of Revenue on deputation basis w.e.f. 26-12-2000 (F/N).

PYARE LAL, Under Secy.

New Delhi, the 1st January 2001

### INDIAN CUSTOMS & CENTRAL EXCISE ESTABLISHMENTS

No. 1 of 2001 (F. No. A-32012/9/99-Ad.II).—The President is pleased to order that Shri Binoy Kumar, Assistant Commissioner of Customs, Mumbai, (Junior Time Scale) (Rs. 8000-275-13500/-) be promoted in the grade of Assistant Commissioner of Customs & Central Excise, Group "A" (Senior Time Scale) (Rs. 10,000-325-15,200/-) w.e.f. 4-9-99.

R. K. MALHÖTRA, Under Secy.

### (COMPELLENT AUTHORITY CELL)

New Delhi, the 26th December 2000

### (HEADQUARTERS ESTABLISHMENT)

No. 6/2000 (F. No. 2(12)/93-CA(Pt.II).—The President is pleased to appoint Shri V. K. Sharma, an officer of the Indian Customs and Central Excise Service and formerly posted as Commissioner of Customs Amritsar, as Competent Authority & Administrator (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 and Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985), Lucknow with effect from the forenoon of the 21st November, 2000 and until further orders.

C. J. SCARIA, Desk Officer (C.A. Cell)

### DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 8th January 2001

No. A.19011/1/2001-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri L. K. Prasad, Under Secretary of CSS, in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance in the same capacity with effect from the forenoon of January 1, 2001 and until further orders.

R. S. YADAV, Under Secy.

### (BANKING DIVISION)

New Delhi, the 10th January 2001

No. 14/1/99-DRT.—Consequent upon his posting as District & Sessions Judge, Ujjain, Sh. R. Y. Durve, Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal-I, Delhi shall stand relieved from the service of Debts Recovery Tribunal, Delhi on 10-01-01 (A). Shri S. N. Aggarwal, Presiding Officer, DRT-II, Delhi would take over the charge from him as Presiding Officer, DRT-I, Delhi in addition to his own charge.

G. R. SUMMAN, Dy. Secy.

No. 14/1/99-DRT.—Consequent upon falling vacant the office of Presiding Officer of Debts Recovery Tribunal, Delhi due to the posting as District & Sessions Judge, Ujjain of Shri R. Y. Durve and in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 Shri S. N. Aggarwal, Presiding Officer of DRT-II, Delhi is authorized to discharge the functions of Presiding Officer of DRT-I, Delhi also with immediate effect in addition to his own charge till the vacancy of Presiding Officer in the Debts Recovery Tribunal-I, Delhi is filled up.

G. R. SUMMAN, Dy. Secy.

### MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY (DEPARTMENT OF COMMERCE)

#### DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 10th January 2001

No. 5/1/98-PERS.I/1181.—The President is pleased to grant Non-Functional Selection Grade (Scale Rs. 14300-400-18300/-) to Smt. R. Sudha Grade I of Indian Trade Service (i.e. Joint Director General of Foreign Trade (Pay Scale Rs. 12000-375-16500/-) with effect from 20-11-2000 until further orders.

A. K. M. CHAKANKAR, Jt. Director  
General of Foreign Trade

## MINISTRY OF PETROLEUM &amp; NATURAL GAS

New Delhi, the 24th November 2000

No. A-12011/10/97-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Eugene Thomas F., a permanent Grade 'C' Stenographer of CSSS borne on the cadre of the Ministry of Petroleum & Natural Gas, as Private Secretary (A&B merged) in this Ministry on ad hoc basis in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- for a period of 6 months w.e.f. 21-11-2000 or until further orders, whichever is earlier.

RENUKA KUMAR, Under Secy

The 27th November 2000

No. A-12011/4/99-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the zone for making addition to the Select List 1998 vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/1/2000-CS.II dated 30/31st May, 2000, the President is pleased to appoint Shri P. C. Jain, Private Secretary (Grade A&B merged) of CSSS in the cadre of Ministry of Petroleum & Natural Gas in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 21-11-2000.

2. He will be on probation for a period of two years from the date of his appointment as Private Secretary (Grade A&B merged) in this Ministry.

RENUKA KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 3rd January 2001

No. SM/01/001/2000.—The President is pleased to appoint the following Officers as Dy. Superintending Surveyor, Survey of India, Group 'A' service in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- w.e.f. the dates mentioned against their names and until further orders.

1. Shri C. H. Venkateswara Rao—29-09-2000.
2. Shri Uday Shanker Prasad—29-09-2000
3. Shri Nitin Joshi—29-09-2000
4. Shri Sandeep Shrivastava—02-11-2000.

AVINASH DIKSHIT, Dy. Secy.

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110 003, the 4th December 2000

No. A.19011/13/2000-IFS-I.—The President is pleased to appoint Shri A. R. M. Reddy, an officer belonging to the 1988 batch of Himachal Pradesh cadre of the Indian Forest Service, to the post of Lecturer, State Forest Service College, Dehra Dun under the Ministry of Environment and Forests with effect from the forenoon of 9th August, 2000 until further orders.

G. P. HALDAR, Under Secy.

No. A.19011/14/2000-IFS-I.—The President is pleased to appoint Shri Jagbandhu Mishra, an officer belonging to the 1985 batch of Manipur-Tripura joint cadre of the Indian Forest Service, to the post of Conservator of Forests (c) Regional Office Ministry of Environment and Forests, Shillong under the Ministry of Environment and Forests with effect from the forenoon of 17th October, 2000 until further orders.

G. P. HALDAR, Under Secy.

No. A.19011/15/2000-IFS-I.—The President is pleased to appoint Shri J. K. Rawat, an officer belonging to the 1972 batch of Haryana cadre of the Indian Forest Service, to the post of Director, Forest Survey of India, Dehra Dun under the Ministry of Environment and Forests with effect from the forenoon of 10th November, 2000 until further orders.

G. P. HALDAR, Under Secy.

New Delhi-110003, the 21st December 2000

No. 12012/7/99-P.II(.).—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 21/48/97-CS-I, dt. 20-8-99, the President is pleased to appoint Mrs. Rita Tayal, Section Officer of the Central Secretariat Service as Under Secretary on personal/in-situ basis in the Ministry of Environment & Forests in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the 13th November, 2000 and until further orders against the post of Under Secretary by upgrading the post of Section Officer held by her.

2. The appointment against the upgraded post will not entitle the aforesaid officer to make any claim for regular appointment as Under Secretary or seniority in the grade.

3. The aforesaid appointment will be subject to the outcome of the MA No. 640/1998 filed by Amrit Lal & Ors pending in the CAT, Principal Bench, New Delhi and OA No. 146/1998 filed by Shri M. Sreenivas & Ors. in the CAT

S. S. S. SARMA, Under Secy.

New Delhi-110003, the 26th December 2000

No. A-23012/1/96-P.II(.).—The Ad hoc appointments of the following Assistants of the CSS cadre of the Ministry of Environment & Forests as Section Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- are extended with approval of the competent authority and the Department of Personnel & Training vide their O.M. No. 5/11/97-CS-I dated 15-11-2000 for the period as indicated against each or till regular incumbents become available, whichever is earlier.

1. Shri Manoj Kumar Singh, from 01-10-2000 to 31-03-2001
2. V. D. Sahni, from 01-10-2000 to 31-03-2001
3. Shri J. K. Chakravarty, from 01-10-2000 to 31-03-2001
4. Shri P. C. Mangain, from 01-10-2000 to 31-03-2001
5. Shri O. P. Chillar, from 01-10-2000 to 31-03-2001
6. Shri T. N. Makkar, from 23-02-1999 to 31-03-2001

2. The ad hoc promotion will not confer any right upon the above officers to claim for regular promotion. The Government reserves the right to cancel the ad hoc promotion without assigning any reason and revert the Government servant at any time to the post from which they were promoted.

S. S. S. SARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE  
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 9th January 2001

No. A.12025/169/96-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. C. Ravi Chandra to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 27-06-1997 until further orders. Dr. C. Ravi Chandra is posted as Medical Officer under Ministry of Labour.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A.12025/153/97-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Nirmala Rani to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 27-11-1997 until further orders. Dr. (Smt.) Nirmala Rani is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 10th January 2001

No. A.12025/151/98-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission the President is pleased to appoint Dr. Ravindra Y. Asangi to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 12-02-1999 until further orders. Dr. Ravindra Y. Asangi is posted as Medical Officer under India Security Press, Nasik.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 11th January 2001

No. A.12025/10/99-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Manisha Das to the Medical Officers Grade in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 6-6-2000 until further orders. Dr. Manisha Das is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Mumbai.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/40/99-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sailaja Mahadevan to the Medical Officers Grade in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 7-8-2000 until further orders. Dr. Sailaja Mahadevan is posted as Medical Officer under Central Govt. Health Scheme, Thiruvananthapuram.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/110/99-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ranjan Das to the Medical Officers Grade in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 10-3-2000 until further orders. Dr. Ranjan Das is posted as Medical Officer under Central Govt. Health Scheme, Mumbai.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 9th January 2001

No. A. 39012/6/97-CHS. IV.—Consequent on the acceptance of his resignation, Dr. Ramesh Chandra an officer of the Specialist Grade-II of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of the Central Health Service relinquished charge of the post of ENT Specialist, CGHS, Delhi on the afternoon of the 24th July, 1997.

N. K. PUSHPAKARAN, Under Secy.

No. A. 12025/9/99-CHS. IV.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ranganath M. Katti to the Specialist Grade-II post of the Non-Teaching Specialist Sub-Cadre of the Central Health Service, on probation and to post him as Eye Specialist in CGHS, Chennai with effect from the forenoon of the 21st September, 2000 and until further orders.

2. Dr. Ranganath M. Katti relinquished charge of the post of C.M.O. from the General Duty Medical Officer Sub-Cadre of Central Health Service on the forenoon of the 21st September, 2000.

N. K. PUSHPAKARAN, Under Secy.

## MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 18th December 2000

No. 2-6/95-SWC.III (Vol.II).—The President is pleased to appoint Shri R. K. Dutta, Overseer, Government of India Press, Minto Road, New Delhi, as Printing Officer (G.C.S. Group 'A' Gazetted—Scale : Rs. 8000-275-13500) in All India Soil & Land Use Survey with effect from the afternoon of 27th November, 2000 on deputation basis for a period not exceeding three years, or until further orders, whichever is earlier.

R. K. AGRAWAL, Under Secy.

The 4th January 2001

No. 2-6/95-SWC. III (Vol. II).—The President is pleased to appoint Shri R. K. Dutta, Overseer, Government of India Press, Minto Road, New Delhi, as Printing Officer (G.C.S. Group 'A', Gazetted—Scale : Rs. 8000-275-13500) in All India Soil & Land Use Survey with effect from the Forenoon of 27th November, 2000 on deputation basis for a period not exceeding three years, or until further orders, whichever is earlier.

This superseeds this Department's Notification of even number dated 18th December, 2000.

R. K. AGRAWAL, Under Secy.

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 9th January 2001

No. P-1046/2000-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training O. M. No. 31/28/2000. EO (MM. I) dated 13th December, 2000, the President is pleased to appoint Shri I. M. Sondhi, Deputy Secretary of Department of Family Welfare as Deputy Secretary in the Department of Consumer Affairs in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500 w.e.f. the forenoon of 1st January, 2001 until further orders.

S. K. NAYAK, Under Secy.

No. A-43011/2/2000-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 31/17/2000-EO (MM-I) dated 14th November, 2000, the President is pleased to appoint Shri S. L. Meera, CSS Under Secretary of Department of Telecommunications as Under Secretary in the Department of Consumer Affairs in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 w.e.f. the forenoon of 1st January, 2001 until further orders.

S. K. NAYAK, Under Secy.

#### MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi-110001, the 27th November 2000

No. A-12022/5/2000-Estt. I.—In supersession of this Ministry's Notification of even number, dated 21-11-2000, the President is pleased to appoint Shri Rajat Bhargava, IAS (AP : 90) as Private Secretary to the Minister of Rural Development (Shri M. Venkaiah Naidu) in the Ministry of Rural Development at the level of Deputy Secretary with effect from the afternoon of 17th November, 2000 for a period of three years of tenure as admissible to the Private Secretaries to Ministers or till he ceases to function as Private Secretary to the Hon'ble Minister of Rural Development or until further orders whichever event takes place the earliest.

A. K. SONI, Under Secy.

#### MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF SECONDARY EDUCATION & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 5th December 2000

No. A. 32011/7/2000-E. I.—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar as Under Secretary in the Ministry of Human Resource Development (Department of Secondary Education & Higher Education) purely on adhoc basis with effect from the forenoon of 1st December, 2000.

2. The aforesaid appointment is purely on adhoc basis pending preparation of Select List of Grade-I of CSS or until further orders, whichever is earlier. He shall have no claim for inclusion of his name in the Select List of Grade-I of CSS on the basis of his adhoc appointment. The adhoc promotion shall not be used to claim seniority as and when the name of Shri Ashok Kumar is included in the Select List for Grade-I of the CSS.

L. R. AGGARWAL, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi, the 19th December 2000

No. A-32013/1/98-NA.—On the recommendation of Union Public Service Commission, the President is pleased to promote Sh. P. Sundara Rajulu, Demonstration Officer to the post of Assistant Technical Adviser (Group 'A', Gazetted, GCS cadre) in the scale of pay of Rupees 8000-275-13500/- in officiating capacity with effect from the forenoon of the 23rd August, 2000.

R. SHANKARAN, Under Secy

The 11th January 2001

No. A-32013/2/2000-NA.—On the recommendation of Departmental Promotion Committee, the President is pleased to promote Shri Dhara Singh, Assistant Technical Adviser to the post of Dy. Technical Adviser (Group 'A', Gazetted)

in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/- with effect from the forenoon of 13th September, 2000.

R. SHANKARAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS (DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi, the 8th January 2001

No. PF-2324/Admn.—The sudden and untimely death of Shri M. S. Mahipaul, Assistant Director General of the Department of Posts on 23-12-2000 has been received with a great sense of shock and sorrow.

G. P. PILLAI, Assistant Director General (Admn.)

#### MINISTRY OF TOURISM AND CULTURE (DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 21st December 2000

No. A-19011/9/2000-Estt.—Shri K. N. Shrivastava, IAS (KN : 78) has assumed charge of the post of Joint Secretary in the Ministry of Tourism and Culture, Department of Culture with effect from the forenoon of 20th December, 2000.

K. C. GUPTA, Under Secy.

#### MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 8th January 2001

No. E(GP)/99/1/55.—The President is pleased to approve of the undermentioned 32 Group 'B' officers of Signal & Telecommunication Engg. Department of Indian Railways, being appointed substantively to the Junior Scale of the Indian Railway Service of Signal Engineers with effect from 29th November, 2000 on the Railway mentioned.

Sl. No. & Name of the Officer

Central Railway

S/Shri

1. N. D. Mishra
2. V. K. Viswanathan
3. S. V. Deshpande
4. U. S. Bhatt
5. Ajay Kulshreshth
6. A. M. Nimonkar

Eastern Railway

S/Shri

1. S. Chowdhury
2. R. K. Bhattacharjee
3. Ganesh Das
4. D. P. Samajdar
5. B. K. Saha (S/C)

Northern Railway

S/Shri

1. Shekhar Srivastava
2. Surinder Pal
3. K. A. Abdulla
4. V. D. Bambi

North-East Frontier Railway

S/Shri

1. A. K. Das (S/C)
2. B. Sikder
3. C. Gopalkrishnan

## Southern Railway

S/Shri

1. Y. Padmanabha Rao
2. R. Subbalan (S/T)

## South Central Railway

S/Shri

1. P. V. Raman Kutty
2. V. Chalapathi (S/C)

## South Eastern Railway

S/Shri

1. S. P. Mukhopadhyay
2. N. C. Das (S/C)
3. P. K. Das (S/C)
4. H. Y. Doburkar (S/T)

## Western Railway

S/Shri

1. H. K. Sharma
2. A. K. Suresh Babu
3. R. K. Gupta
4. A. K. Parashar
5. K. K. Grover
6. Rajvir Singh.

D. P. TRIPATHI  
Secretary/Railway Board

## MINISTRY OF SHIPPING

(ESTT. I SECTION)

New Delhi, the 8th January 2001

No. A-12028/6/2000-EI.—The President is pleased to appoint Shri Rakesh Ranian Singh, Field Exhibition Officer of Directorate of Audio Visual Publicity as Assistant Private Secretary to Minister of Shipping (Shri Arun Jaitley) in the pay scale of Rs. 6500—10500/- w.e.f. 5th January, 2001 (F/N) on co-terminus basis or until further orders.

REENA SETHI, Under Secy

The 9th January 2001

No. A-32013/1/98-EI.—In continuation of this Ministry's Notification of even No. dated 25th July 2000, the President is pleased to extend the term of ad hoc appointment of Shri Raj Mal, Principal Private Secretary of CSSS, Ministry of Shipping as Senior Principal Private Secretary for a period w.e.f. 1-1-2001 to 30-6-2001 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier.

REENA SETHI, Under Secy.

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT &amp; HIGHWAYS

(ESTT. I SECTION)

New Delhi, the 10th January 2001

No. A-12028/5/2000-EI.—The President is pleased to appoint Shri Prabhat Kumar Sarangi, IAS (UP : 86) as Private Secretary to Minister of State for Road Transport & Highways (Independent charge) [Major General (Retd) B. C. Khanduri] at the level of Director in the pay scale of

Rs. 14300—18300 w.e.f. 29-12-2000 (FN) for a period of three years or till he ceases to function as PS to Minister or until further orders, whichever event takes place at the earliest

REENA SETHI, Under Secy

(ESTT. II SECTION)

New Delhi, the 5th January 2001

No. A-12025/1/99-EI.—The President is pleased to appoint Shri Jay Bardhan as Assistant Executive Engineer in the Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi in the pay scale of Rs. 8000-275-13,500/- w.e.f. 29-12-2000 (FN) until further orders.

C. L. SHARMA, Under Secy.

## MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 4th January 2001

No. 1/2001. (F.No. A-38012/1/2000-Adm.I).—On attaining the age of superannuation, Shri N. Ramalingam, Superintending Engineer of the Central Power Engineering (Group A) Service in the Central Electricity Authority, retired from service under the Government of India on the afternoon of the 31st October, 2000.

S. N. BURMAN, Dy. Secy.

## MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi-110001, the 22nd December 2000

No. 12/2/2000-Admn.II (Pt.).—The President is pleased to appoint Shri V. K. Chaudhary as Officer on Special Duty in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500 in the personal staff of Hon'ble Minister of State for Information and Broadcasting (Shri Ramesh Bais) w.e.f. 01-10-2000 and until further orders.

2. The appointment of Shri Chaudhary will be at the pleasure of and co-terminus with the tenure of the Minister of State for Information and Broadcasting (Shri Ramesh Bais).

H. G. UPRETI, Under Secy

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION

New Delhi, the 6th November 2000

No. A-22012/2/99-Adm.I.—The President is pleased to appoint Shri Madhukar Gupta, IAS (UP : 71) as Joint Secretary in the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation (Deptt. of Urban Development) in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- with effect from the forenoon of 6-11-2000 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

2. Shri Madhukar Gupta was relieved by the Govt. of Uttar Pradesh w.e.f. 31-10-2000 (AN). He has availed 5 days joining time w.e.f. 1-11-2000 to 5-11-2000.

D. K. PALIWAL, Under Secy

The 7th November 2000

No. A-12025/1/97-Adm.I.—Consequent on his being recommended by the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Vijai Kumar Chaurasia who was working as Scientist 'B' in the Central Road Research Institute, New Delhi, as Assistant Adviser (PHE) in the Central Public Health and Environmental Engineering Organisation in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis with effect from 1-11-2000 (FN), until further orders. He will be on probation for a period of one year.

2. The appointment of Shri Vijai Kumar Chaurasia as Assistant Adviser (PHE) is subject to the verification of the veracity of the certificate that he belongs to Other Backward Class from the issuing authority.

D. K. PALIWAL, Under Secy.

New Delhi-110011, the 15th November 2000

No. A-23016/1/97-H.I./H.II.—In continuation to the Notification of even No. dated 9-6-2000 and in pursuance of Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Office Memorandum No. 13015/1/96-IES dated 6-11-2000, Shri J. K. Nagpal, Research Officer in NBO is granted extension w.e.f. 10-11-2000 for a further period upto 7-5-2001, thereby treating one day i.e. 9-11-2000 as a technical break till regular arrangement is made whichever is earlier.

SMT. S. P. MUNJAL, Under Secy.